



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

15 श्रावण, 1940 (श०)

संख्या- 740 राँची, सोमवार

6 अगस्त, 2018 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

आदेश

2 अगस्त, 2018 ई०।

संख्या-05/सी०सी०ए०/01/90/2017-4287-- चूंकि झारखण्ड सरकार को संतुष्ट होने का पर्याप्त आधार है **हजारीबाग** जिला में आपराधिक एवं नक्सली गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों को निरुद्ध करने की आवश्यकता है । ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना सामान्य दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत निरुद्ध करना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है । अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 अंगीकृत की धारा 12(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हेतु झारखण्ड राज्य के **हजारीबाग** जिला के उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 12(2) के अधीन पत्र निर्गत की तिथि से आगामी **तीन माह** तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अन्तोनी सांगा,

सरकार के अवर सचिव।